

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-मुबारकपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी विषयक चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्रा के सतत पर्यवेक्षण में आज दिनांक 21.09.2020 को उ.नि. कमल नयन दूबे मय हमराहि यान द्वारा मुखबिर की सूचना पर रोडवेज मुबारकपुर इन्डिया गेस्ट हाउस के पास से एक व्यक्ति अवधेश यादव पुत्र मुखराम यादव निवासी मोजरापुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर साथ समय 6.40 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 200/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अवधेश यादव पुत्र मुखराम यादव निवासी मोजरापुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 200/20 धारा 3,25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद तमन्चा .315 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 कमल नयन दूबे चौका प्रभारी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ ।

का0 कमलेश कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

का0 विपिन यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

का0 अभय नरायन यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

## थाना-मुबारकपुर

पुलिस की तत्परता से मस्जिद में चोरी करते हुए रंगे हाथ दो शातिर चोर गिरफ्तार ,चोरी करने के उपकरण,चोरी के रूपये एव मोटरसाइकिल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 20.09.2020 को हे0का0 संतोष कुमार यादव व का0 नागेन्द्र प्रसाद थाना मुबारकपुर द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम प्रधान उदयभान महफूजुर्रहमान की मदद से व पुलिस की तत्परता से मस्जिद में चोरी कर भाग रहे दो चोरों को मय चोरी के उपकरण चोरी के रूपयों के साथ ग्राम उदयभानपुर से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना क्रमशः 1. मो. अनीश पुत्र मो. जावेद निवासी रसूलपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2. अबु सहमा पुत्र मो. एजाज निवासी रसूलपुर थाना बरदह जनपद-आजमगढ़ बताया। अभियुक्तगण के कब्जे से दो अदद पिलास, एक अदद टेस्टर, एक अदद चाकू, 09 अदद चाभी व चोरी के 509 रूपया नगद बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 199/20 धारा 454,380,411 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम लोगो का घर ग्राम रसूलपुर थाना बरदह आजमगढ़ है। हम लोग अपनी रिस्तेदारी ग्राम असाउर आये थे। नमाज पढने के लिए ग्राम उदयभानपुर मस्जिद में गये जहाँ मस्जिद में कोई आदमी न होने से मस्जिद के पेटी में रखा पैसा चुरा लिये। हम लोगो को चोरी करते हुए एक आदमी ने देख लिया जिससे हम लोग पकड़े गये।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. मो0अनीश पुत्र मो0 जावेद निवासी रसूलपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
2. अबु सहमा पुत्र मो0 एजाज निवासी रसूलपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

### पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 199/20 धारा 454,380,411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़  
**बरामदगी**

1. चोरी करने के उपकरण- 2 अदद पिलास, एक अदद टेस्टर, एक अदद चाकू, 09 अदद चाभी
2. चोरी के 509 रूपया नगद
3. एक अदद मोटरसाइकिल न0-UP50N7629 बरामद।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

हे0का0 संतोष कुमार यादव थाना मुबारकपुर आजमगढ़।  
का. नागेन्द्र प्रसाद थाना मुबारकपुर आजमगढ़।